

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १३] नई दिल्ली बुधवार जनवरी १५, १९६९/पौष २५, १८९०

No. 13] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 1969/PAUSA 25, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 15th January 1969

G.S.R. No. 140.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), G.S.R. 1173 (No. 89/F. No. 6/26/68-Cus. I) dated the 19th June, 1968 namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column 2 headed "Description of article", in item No. (ii) against Sl. No. 4, for the letters and figures "Rs. 1,500", the letters and figures "Rs. 1,250" shall be substituted.

[No. 22/F. No. 6/59/68-Cus. I.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

(31)

